



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अगस्त 17—अगस्त 23, 2008, शनिवार/श्रावण 26—भाद्र 1, 1930
No. 26] NEW DELHI, AUGUST 17—AUGUST 23, 2008, SATURDAY/SRAVANA 26—BHADRA 1, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2008

आ. अ. 67.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2005 (जनवरी-फरवरी) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी				
क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2005 (जनवरी-फरवरी)	93-कल्याणपुर	ललन कुमार, अशोक नगर, पो.-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	विनय रंजन, पुनाई चक, पो.-थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना, बिहार।	-वही-
3.	-वही-	151-गोपालपुर	ज्ञानेश्वर प्र. यादव, पि.-बलराम यादव, थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर, बिहार।	-वही-
4.	-वही-	239-नवादा	राजेन्द्र सिंह, ग्राम-अपाढ़ी, थाना-मुफ्फसिल, नवादा, बिहार।	-वही-

[सं. 76/बिहार-वि. स./2006]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2008

O. N. 67.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2005 (January-February) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the candidates	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Jan.-Feb.)	93-Kalyanpur	Lalan Kumar, Ashoknagar, Post-Lohianagar, Kankerbagh, Patna, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Vinay Ranjan, Punaichak, Post+P.S.-Shastrinagar, Dist.-Patna, Bihar.	-do-

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Jan.-Feb.)	151-Gopalpur	Gyaneshwar Pd. Yadav, S/o Balram Yadav, Naugachia, Bhagalpur, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses.
4.	-do-	239-Nawada	Rajendar Singh, Vill.-Asharhi, P.S. Muffasil, Nawada, Bihar.	-do-

[No. 76/BR-LA/2006]

By Order,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2008

आ. अ. 68.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2005 (अक्तूबर-नवम्बर) के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10^(क) के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2005 (अक्तूबर-नवम्बर)	184-बाढ़	लाला दास, ग्राम-पोस्ट-रूस्तमपुर, थाना-सधोपुर, जिला वैशाली, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	232-गया टाउन	बच्चु लाल विठल, मेंहदी बाग, चांदचौरा, पो.-चांदचौरा, जिला-गया, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
3.	-वही-	-वही-	जावेद करीम, न्यु करीम गंज, प्रो.-जी.पी.आ., जिला-गया, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4.	-वही-	234-गुरूआ	सुनील कुमार सिंह, ग्राम-पो.-आमस, जिला-गया, बिहार।	-वही-
5.	-वही-	-वही-	सोनु भारती, ग्राम-कोरमथु, पो.-श्यामनगर नीमा, जिला-गया, बिहार।	-वही-

1	2	3	4	5
6.	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2005 (अक्टूबर-नवम्बर)	236-बाराचट्टी (अ.जा.)	रामदेव मांझी, ग्राम-नदरपुर, टोला-भीतरघरवा, पतेलुका, थाना-बाराचट्टी, जिला-गया, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं. 76/बिहार-वि. स./2007]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 2008

O. N. 68.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2005 (October-November) from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2005 of Bihar State (Oct.-Nov.)	184-Barth	Lala Das, Village+Post-Rustampur, P.S. Raghopur, Distt. Vaishali, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	232-Gaya Town	Bachchu Lal Bithhal, Mehndibag, Chand choura, PO-Chandchoura, Dist.-Gaya, Bihar.	Failure to lodge account of election expenses in the manner required by law
3.	-do-	-do-	Jawaid Karim, New Karimganj, P.O. GPO Gya, Dist.-Gaya, Bihar.	Failure to lodge any account of election expenses.
4.	-do-	234-Gurua	Sunil Kumar Singh, Vill.+P.O.-Amas, Dist.-Gaya, Bihar.	-do-
5.	-do-	-do-	Sonu Bharti, Vill.-Kormathu, P.O.-Shyam Nagar, Nima, Dist.-Gaya, Bihar.	-do-
6.	-do-	236-Barachatty (SC)	Ramdeo Manjhi, Vill.-Nadarpur, Tola-Bhitargharba, P.O.-Patluka, PS-Barachatti; Dist.-Gaya, Bihar.	-do-

[No. 76/BR-LA/2007]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2008

आ. अ. 69.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 41-थुराल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2007 के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री ज्ञान चन्द, ग्राम सोलवनेहउड, डा. अप्परलम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे;

यतः श्री ज्ञान चन्द ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में श्री ज्ञान चन्द को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत घोषित करता है।

[सं. 76/हि. प्र.-वि. स./2008(3)]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 2008

O. N. 69.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Gian Chand, Village Sol-Banehar, P.O. Upper Lambagaon, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra, Himachal Pradesh a contesting candidate for the General Election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 2007 from 41-Thural Assembly Constituency has failed to lodge account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and to Rules made thereunder.

Whereas, Shri Gian Chand, has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice, or the Election Commission and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Shri Gian Chand, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/HP-LA/2008(3)]

By Order,

STANDHOPE YHULUNG, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2008

आ. अ. 70.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में 2006 में हुए केरल विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत घोषित करता है।

3013 67/08-2

सारणी			
क्र.सं.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4
1.	4-होसदुर्ग (अ.जा.)	श्री सी. राघवन, पुत्र श्री थिरुशा, अडुनकम हाउस, कालीचन्दुक्कम, डाकघर, कासारागोड (जिला) केरल	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया
2.	16-चडयमंगलम	श्री कडक्कल सुन्दरेसन, हरीश भवन, डाकघर, कडक्कल, केरल	-वही-
3.	16-उत्तर वयानाड (अ.ज.जा.)	श्री के. ए. कुन्हीरमन, कोडुमेल वीडु, कम्माना डाकघर, केरल	-वही-
4.	-वही-	श्री सी. पी. माधवन, चीरूर हाउस, अराटुत्थारा डाकघर, केरल	-वही-

[सं. 76/केरल-वि. स./2008]

आदेश से,
तपस कुमार, प्रधान सचिव**ORDER**

New Delhi, the 11th August, 2008

Ø. N. 70.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Kerala Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder.

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate (S/Shri/Smt.)	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	4-Hosdurg (SC)	Sh. C. Raghavan S/o. Thirumma, Adukkam House, Kalichanadukkam, P.O. Kasaragod (Dt.) Kerala.	Accounts not lodged at all.
2.	16-Chadayamangalam	Sh. Kadakkal Sundaresan, Hareesh Bhavan, Pullupana, P.O., Kadakkal, Kerala.	-do-
3.	16-North Wayanad (ST)	Sh. K.A. Kunhiraman, Kodumail Veedu, Kammana P.O., Kerala.	-do-
4.	-do-	Sh. C.P. Madhavan, Cheroor House, Arattuthara P.O., Kerala.	-do-

[No. 76/KL-LA/2008]

By Order,
TAPAS KUMAR, Principal Secy.